



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 153] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 1981/चैत्र 16, 1903

No. 153] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 1981/CHAITRA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1981

क्र. आ. 289 (अ).—केंद्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक
(सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व विभाग के आदेश सं. का.

आ. 472 (अ) [सं. 6/प्रशा. (7)/78-एस. ए. ई. एम. ए] दिनांक 28 जुलाई, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे सारणी में स्तम्भ 1 में “श्री एन. सुब्रमणियन” के स्थान पर “ए. ए. जे. डिसूजा” रखा जाएगा।

[नं. 3925/फ. स. प्रशारण (18)/80-सफमा]

ए. एन. मिश्र, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 6th April, 1981

S.O. 289(E).—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (2) of section 27 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976, (13 of 1976) the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 471(E) [No. 5/Admn. (7)/78-Safema] dated the 28th July, 1978, namely :—

In the Table below the said notification, under column (1) for the words and letters “Shri N. Subramanian”, the words and letters “Shri A. J. D’Souza” shall be substituted.

[No. 3929 F. No. Admn/(18) 80 Safema]

A. N. MISRA, Director